

संपादकीय

हवा में संक्रमण

ऐसे वक्त में अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्वीकार करने लगा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से फैलने के सबूत हैं तो कोरोना संकट से जूझ रही सरकारों और लोगों की चिंताएं गहरी हो गई हैं। इससे पहले क्लीनिकल इफेक्शियस डिजीज जर्नल में बीते सोमवार को 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के प्रकाशित खुले खत में प्रमाण दिये गये थे कि कोरोना 'फ्लोटिंग वायरस' है जो हवा में उड़ सकता है और फिर सांस लेने से लोगों को संक्रमित कर सकता है। पत्र में मांग की गई थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने दिशा-निर्देशों को मौजूदा चुनौती के मद्देनजर बदले। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिये फैलने के सबूत मिल तो रहे हैं, लेकिन अभी पक्के तौर पर इस बात को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। यह भी कि सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाली, कम हवा वाली तथा बंद जगहों पर हवा के जरिये संक्रमण फैलने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस दिशा में प्रमाण एकत्र करके निष्कर्षों को समझने की जरूरत है। निस्संदेह यदि ऐसा है तो कोरोना के खिलाफ आम आदमी की लड़ाई को नये सिरे से परिभाषित करना होगा, क्योंकि ऐसे में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जायेगा। दरअसल, बीते मार्च में चीन में संक्रमण के बाद डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि वायरस संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकली सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से ही फैलता है। उसी के अनुसार ही बचाव के तौर-तरीके तय किये गये। मसलन लोगों में 3-3 फीट की दूरी से बचाव संभव है। हालांकि नये अध्ययनों के बाद बचाव के उपायों का नये सिरे से निर्धारण करना होगा। निस्संदेह अब कोविड-19 की रोकथाम के लिये बड़े पैमाने पर कदम उठाये जाने की जरूरत होगी।

दरअसल, अब तक इसके संक्रमण की आशंका वहीं जतायी जा रही थी जहां कोई कोरोना मरीज मौजूद होता था। अतः उपचार में लगे चिकित्साकर्मियों को ही सचेत किया गया था। अब चुनौती का स्तर व्यापक हो गया है। हालांकि, हवा में संक्रमण के सवाल गाहे-बगाहे हवा में तैरते रहे थे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। कहा गया कि इसके विषाणु ज्यादा समय हवा में विद्यमान नहीं रह सकते, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। मगर वैज्ञानिकों के नये दावे इन बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। निस्संदेह यह पूरी मानवता के लिये बेहद चिंता की बात है। सीमित चिकित्सा सुविधाओं और पूरी दुनिया में व्याप्त अथाह गरीबी को देखते हुए आने वाले दिनों में समस्या के और जटिल हो जाने की आशंका बलवती हो गई है। पहले से ही तमाम विवादों से घिरे तथा बड़ा आर्थिक योगदान देने वाले अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से पल्ल झाड़ लेने के बाद इस संगठन की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। नयी चुनौती का गहराई से अध्ययन किये जाने की जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी बचाव के उपाय आम लोगों तक पहुंच सकें। फिर मास्क की उपयोगिता व सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी को नये सिरे परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इससे आगे जाकर सोचने की जरूरत होगी कि नये उपाय क्या हो सकते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को लगातार विकट होती इस चुनौती से मुकाबले के लिये आगे आना होगा। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या सवा करोड़ के करीब पहुंच गई है और मरने वालों का आंकड़ा साढ़े पांच लाख से अधिक हो गया है, इस महामारी से बचाव के लिये तैयारी युद्धस्तर पर किये जाने की जरूरत है। वैक्सीन तलाशने की कोशिश भी भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में की जा रही है। वहीं नागरिकों के स्तर पर बेहद सावधानी और संयम की जरूरत है। लोग मास्क लगाने व सुरक्षित दूरी रखने में लापरवाही बरत रहे हैं। हमारी जरा-सी लापरवाही कई लोगों को मुश्किल में डाल सकती है।

ऐपल आईफोन असेंबल करने वाली कंपनी पेगाट्रॉन कॉर्प भारत में खोलेगी कारखाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना संकट के बीच पिछले कुछ महीनों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर का टेक इन्वेस्टमेंट आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल इंक का असेम्बलिंग पार्टनर पेगाट्रॉन कॉर्प भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहा है। कंपनी भारत में अपना पहला असेम्बलिंग प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रही है। इस कंपनी के चीन में कई असेम्बलिंग प्लांट हैं। हालांकि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच जारी तनाव और अमेरिकी



सरकार द्वारा वहां की कंपनियों पर बढ़ते दबाव से ये कंपनियां भविष्य को लेकर सतर्क हैं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने जून के महीने में 6.6

अरब डॉलर का स्पेशल प्लान तैयार किया था। इसके तहत दुनियाभर के स्मार्टफोन में-सुपेर्कॉर को फाइनेंशल इंस्टिट्यूट देकर भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है।

पेगाट्रॉन कॉर्प आईफोन के लिए दूसरी सबसे बड़ी असेंबलर है। इसका आधा बिजनेस ऐपल से ही आता है। चीन में कंपनी ने कई फैक्ट्री खोल रखी है। जानकारी के मुताबिक फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जो भारत में पहले से स्थापित हैं, ये कंपनियां अपने कारोबार को फैलाना चाह रही हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करने की तैयारी में है।

मेंटल हेल्थ और वजन घटाने के टिप्स देंगी सानिया मिर्जा

नई दिल्ली। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा है कि उन्होंने इस लॉकडाउन में कोर्ट पर मैच खेलने को काफी मिस किया। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी और बच्चे को जन्म देने के बाद वह फिट हो गई थीं। सानिया ने इसी साल जनवरी में कोर्ट पर वापसी की थी और होबार्ट इंटरनैशनल टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब जीता था। इसके अलावा भारत को फेड कप में प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी वापसी इस कोरोनावायरस के कारण रुक सी गई क्योंकि टेनिस

कैलेंडर को ही रोक दिया गया। 33 साल की सानिया ने कहा, मैंने वापस खेलने के लिए, शेष में आने के लिए, फिट रहने के लिए साथ ही जीतने के लिए काफी मेहनत की थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं कोर्ट को मिस कर रही हूँ। एक और चीज जो मैं मिस कर रही हूँ वह है प्रतिस्पर्धा- मैचों में। सानिया को मार्च 2020 में इंडियन वेल्स में हिस्सा लेना था लेकिन यह टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। इस बीमारी के कारण पूरा खेल कैलेंडर रुक सा गया है और कई टूर्नामेंट्स या तो रद्द किए जा चुके हैं या स्थगित कर दिए गए हैं।

सहवाग के ओपनिंग हेतु तेंडुलकर ने छोड़ी थी अपनी पोजिशन नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर अजय राजे ने खुलासा किया है कि कैसे सचिन तेंडुलकर ने वीरेंद्र सहवाग के लिए अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ दी। राजा ने कहा कि सौरभ गांगुली और सचिन तेंडुलकर दोनों को सहवाग को ओपनिंग करवाने का श्रेय दिया जाना चाहिए। राजा ने कहा, सचिन सलामी बल्लेबाज के तौर पर बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन सहवाग को ओपनिंग करवानी थी। तो सचिन ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का प्रस्ताव दिया।

रियल मैड्रिड ने 34वीं बार जीता ला लिगा खिताब

बार्सिलोना का हैट्रिक बनाने का सपना किया चकनाचूर

मैड्रिड। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से मात देकर 34वां बार ला लिगा का खिताब अपने नाम किया। यही नहीं, रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हैट्रिक बनाने का सपना भी तोड़ दिया। फ्रांस के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा के दो गोलों की मदद से रियल मैड्रिड ने एक मैच शेष रहते हुए ला लिगा का खिताब जीत लिया। बेंजेमा ने मैच के 27वें मिनट में पहला गोल दागकर रियल मैड्रिड को बढ़त दिलाई और फिर




76वें मिनट में दूसरा गोल कर टीम को जीत के मुकाम तक पहुंचाया। वहीं एक अन्य मुकाबले में ओसासुना ने बार्सिलोना को 2-1 से हराया। बार्सिलोना की इस हार से रियल मैड्रिड ने बिना अगला मैच खेले ही खिताब पर अपना कब्जा सुनिश्चित कर लिया। रियल

मैड्रिड के कोच जिनेदिन जिदाने ने खुशी जाहिर करते हुए इसे कोच के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक बताया। रियल मैड्रिड के 37 मैचों में 26 जीत के साथ 86 अंक हैं। वहीं, प्वाँटेटेबल में बार्सिलोना दूसरे नंबर पर है। उनके 37 मैचों में 24 जीत के साथ 79 अंक हैं।

कॉमेडी-ड्रामा फिल्म लुटकेस का ट्रेलर रिलीज

क्या कभी पैसों से भरा बैग हाथ लगा है? अगर नहीं, तो आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म लुटकेस में देखिए क्या होता है, जब पैसों से भरा बैग एक आदमी के हाथ लग जाता है! फिल्म लुटकेस 31 जुलाई, 2020 को रिलीज होगी। इसे देखकर दर्शक निश्चित रूप से हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दर्शकों को लुटकेस की दुनिया की एक झलक पाने के लिए ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था और गुनवार को आखिरीकार,



फॉक्स स्टार इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रेलर का लिंक साझा कर दिया है!

कुणाल खेमु ने ट्रेलर रिलीज के साथ एक मजेदार वीडियो भी साझा किया है, जिसमें दर्शकों से फिल्म के बारे में एक संशोधन करने और अगर अभी तक उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है तो इसे देखने के लिए कहा है। अभिनेता लिखते हैं, सब कह रहे हैं कि इस बैग में कुछ काला है, आप खुद ही देख लीजिए। हैशटैगलुटकेस का ट्रेलर जारी हो चुका है। फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होगी। हैशटैगलुटकेस।

दीपिका पादुकोण ने शेयर कीं स्कूल के दिनों की तस्वीर

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर काफी ऐक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी, पति रणवीर सिंह के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने शोबेक पिक्चर्स शेयर कीं जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। इन फोटोज के जरिए दीपिका अपनी जड़ों को सेलिब्रेट कर रही हैं। दरअसल, ये तस्वीरें उनके स्कूल के दिनों की हैं और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये पिकनिक के समय की हैं। ऐक्ट्रेस ने कैप्शन दिया, वे कहते हैं कि आगे देखो... लेकिन ये चीजें आपको याद दिलाती हैं कि आप कहां से आए थे और इस अविश्वसनीय सफर में आप कहां हैं। पहले फोटो में दीपिका कलाकॉमेड्स के साथ बस में और दूसरे फोटो में ट्रेन में चिल करती नजर आ रही हैं। जैसे ही दीपिका ने पिक्चर्स शेयर कीं, लोग तरह-



तरह के कॉमेंट्स करने लगे। किसी ने कहा कि हमेशा की तरह खूबसूरत तो किसी ने कहा कि दीपिका अब कितनी बदल गई हैं। वर्क फंट की बात करें तो दीपिका आखिरी बार फिल्म छपाक में नजर आई थीं। अब वह रणवीर सिंह के साथ 83 में दिखेंगी। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त बाद उन्हें इस रियल लाइफ कपल को रील लाइफ में साथ देखने का मौका मिलेगा।

फिल्म गोलमाल के 14 साल पूरे, अरशद वारसी, तुषार कपूर ने याद किया

रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म गोलमाल: फन अनलिमिटेड को रिलीज हुए 14 साल हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म में अभिनय करने वाले अरशद वारसी, तुषार कपूर ने याद किया। कॉमेडी ड्रामा फिल्म उस समय खूब हिट साबित हुई थी, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, शरमन जोशी और तुषार कपूर ने अभिनय किया था। फिल्म के 14 साल पूरे होने पर, अरशद और तुषार ने फिल्म में



काम करने को याद किया। अरशद ने मंगलवार को ट्वीट किया, पागलपन शुरू हुए 14

साल हो गए हैं... अभी भी जारी है। तुषार ने फिल्म में मूक किरदार निभाया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के कुछ पोस्टर पोस्ट किए। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, गोलमाल फन अनलिमिटेड के 14 साल। गोलमाल फेंचाइजी को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। गोलमाल फन अनलिमिटेड टीम को भी धन्यवाद। 2006 में रिलीज हुई पहली गोलमाल फिल्म के आज तक फेंचाइजी में चार फिल्मों हैं।

लता ने ऋतिक की तारीफ की

बॉलिवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने माचो मैन ऋतिक रौशन की तारीफ की है। हाल ही में ऋतिक रौशन के दादा रौशन लाल नागरथ की जयंती थी। उस मौके पर लता मंगेशकर ने उनकी याद में उनका फेवरेट गाना रहे ना रहें सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने रौशन लाल को एक महान संगीतकार बताया था और उनके साथ अपने काम को याद किया था। उस पोस्ट पर ऋतिक ने रिप्लाइ करते हुए लिखा था, पूरे परिवार की तरफ से इस

पास्ट के लिए आपका शुक्रिया। लता ने ट्वीट में लिखा है, नमस्कार ऋतिक। आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके परिवार को मैं हमेशा अपना परिवार समझती हूँ। मैं हर साल रौशन जी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके बारे में लिखती हूँ। वो सच में एक बहुत बड़े संगीतकार थे। लता मंगेशकर का ट्वीट देख ऋतिक रौशन इमोशनल हो गए। ऋतिक ने जवाब में लिखा, इन मीठे शब्दों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लताजी। आपने यह कहकर मेरा मान बढ़ा दिया है।

क्यों आती है जूतों से स्मेल और कैसे करें इसे दूर?

गर्मी और बरसात के मौसम में कई लोगों को जूते पहनने पर एक अलग ही समस्या का सामना करना पड़ता है। वह है पैरों से आनेवाली स्मेल। खासतौर पर जब ये लोग अपने जूते उतारते हैं तो जूतों की ये स्मेल मूड खराब कर देती है। आइए, यहां जानते हैं इस बदबू के कारण और इसे दूर करने के तरीके...
क्यों आती है पैरों से स्मेल? - पैरों से स्मेल आने की वजह होती है पैरों में पसेब का आना। आप पसेब को पैरों में होनेवाली स्वेटिंग की तरह समझ सकते हैं लेकिन वास्तव में पसीने और पसेब में टेक्निकल डिफरेंस होता है।
-पसीना हमारे शरीर के उन हिस्सों में आता है जहां स्किन में रोम छिद्र या पोर्स होते हैं, स्किन पर बाल होते हैं। लेकिन पसेब हथेली और तलुओं पर ही आता है और यहां की त्वचा पर रोए या महीन बाल नहीं होते हैं। साथ ही तलुओं और हथेलियों की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों की त्वचा के मुकाबले काफी सख्त और सपाट होती है।
हालांकि कुछ स्थितियों में सामान्य है

-प्राकृतिक तौर पर जो पसीना आता है वो हमें रोम छिद्रों से आता है। जब यह प्राकृतिक कारणों से आता है तो यह सेहत के लिए अच्छा होता है। प्राकृतिक कारणों से मतलब उन स्थितियों से है, जब किसी व्यक्ति को घबराहट, तनाव, बुखार, हाई बीपी जैसी समस्या नहीं होती है। बल्कि गर्मी और उमस के कारण पसीना आता है या एक्ससाइज और रनिंग के बाद पसीना आता है तो यह सामान्य होता है।
किस स्थिति में है यह बीमारी? - अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। सही डायट लेते हैं और धूप में शूज पहनकर बहुत अधिक समय तक नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी आपके पैरों से स्मेल आती है तो यह मानसिक स्थिति सामान्य ना होने का संकेत है।
-रोज धुले हुए मोजे पहनना, पैरों की पूरी सफाई रखना और ज्यादातर स्मेल छाया में रहने के बाद भी पैरों से स्मेल आना यह बताता है कि आप गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आपका दिमाग अशांत है और कोई बात हर समय आपको परेशान किए रहती है।

शब्द सामर्थ्य- 86

<p>चाएँ से दाएँ</p> <p>1. जल छिड़कना, राजा के सिंहासन रोहन का अनुष्ठान 4. मवादा, पीब (अं) 6. जाति 7. हाथ से धीरे-धीरे ठोंकना, थपकना 9. कमल रोग से ग्रसित व्यक्ति (ड.) 11. किरण 12. जाँक, तड़का 13. दुखदामी, दर्दनाक 15. विवाद, कहासुनी, तकरार 18. समुद्र, दल, समुदाय</p>	<p>19. दण्ड 20. काजल 22. अनाथ, निराश्रित, यतीम 24. दुख, शोक 25. एक प्रसिद्ध संकेत पक्षी, चक 26. राज्य का विदेश में प्रतिनिधि।</p> <p>ऊपर से नीचे</p> <p>1. विचित्र, अद्भुत 2. अंदर ही अंदर हानि पहुंचाना 3. वचन, वाणी 4. गुमराह, जो रास्ते से भटक गया हो 5. मुत्सयम सिंह की पार्टी का संक्षिप्त नाम 8. पराजित, परास्त।</p>	<p>ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध देवर्षि 10. कार्यावली, करस्तानी, प्रशासनीय कार्य 13. दासी, नीकरानी, बांटी, गुलाम स्त्री 14. प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला, आविष्कारक 16. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर 17. सामान (ड.) 21. संसार, दुनिया 22. समय, चमेली की जाति का एक पौधा और फूल 23. पराजित, परास्त।</p>
---	---	--

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 85 का हल

दि	क्र	त	आ	सा	न	आ
ल	मी	खि	सी	ख	ना	
म	ज	वू	र	ह	जा	
स	दं	का	त	रा	ना	
र		र	वि	ह		
प	ह	ना	ना	ना	रा	ज
ट		क	शि	श	नी	ला
	र		का	रा		य
खा	ति	र	दा	री	त	क्ष
						क

शब्द सामर्थ्य क्र. 85 का हल

9	2	8	3	1	5	7	4	6
4	1	6	8	9	7	2	5	3
7	3	5	4	6	2	8	1	9
2	7	3	9	8	1	4	6	5
5	4	1	6	7	3	9	2	8
6	8	9	2	5	4	1	3	7
3	6	2	7	4	9	5	8	1
8	5	7	1	2	6	3	9	4
1	9	4	5	3	8	6	7	2

आज का राशिफल

मेघ: आज आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे। विलासितापूर्ण माहौल का लुप्त उठाएंगे। बड़ी मात्रा में पैसा हाथ में आने से आप संतुष्टि महसूस करेंगे।
वृषभ: आज का दिन स्वास्थ्य के लिए खराब है, खान-पान से बचें। आलस्य का भी त्याग करें। ध्यान रहे किसी भी वस्तु की अधिकता हानिकारक होती है।
मिथुन: आज आप एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ करने वाले हैं, जिसके सफलतापूर्वक पूरा होने में एक साल लग सकता है।
कर्क: भाग्य आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
सिंह: नीजि संबंध प्रेम पूर्ण और सहयोगपूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आप विभिन्न कार्यों में सक्रियता पूर्वक भाग लेंगे।
कन्या: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से आज आप एक परियोजना को पूरा करने में सफल रहेंगे। किसी महान व्यक्ति के हस्तक्षेप से पारिवारिक विवाद का समाधान हो जाएगा। आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी।
तुला: आज आपको बहुकोणीय व्यापारिक साझेदारी व संबंधों से लाभ होगा, लेकिन नीजि संबंधों के मामले में त्रिकोणीय रिश्ते आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आप जीवन में तीन भूमिकाएं निभाएंगे।
वृश्चिक: आज दिन मिश्रित फलकारक है। शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होने के बावजूद आप जो भी कार्य साहस के साथ करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र और परिवार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
धनु: सेहत और वित्तीय संसाधनों पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे लोगों के कार्यों के लिए ज्यादा वक्त और ऊर्जा बर्बाद न करें।
मकर: आप महत्वपूर्ण परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़े हैं। किसी कठिन दौर से गुजर सकते हैं।
कुंभ: आज निजी संबंधों पर भावनाएं हावी रहेंगी। अन्तर्मन की पुकार को सुनें। हर मामले में अतिवादी से बचें।
मीन: आपने जो उम्मीदें संजोकर रखी हैं, उनके पूरा न होने पर आप खिन्न हो सकते हैं। निजी संबंधों के कुछ मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।